



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2009 (चैत्र 14, 1931)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4—APRIL 10, 2009 (CHAITRA 14, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	425	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	323	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	69	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1011
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	647	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2125
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	121
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	425	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	323	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	69	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	647	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1011
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	2125
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.....	121
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2008

संख्या 31-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2008 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:--

श्री चन्दर पाल सैनी
जूनियर इंस्ट्रक्टर (हो. गा.)
दिल्ली

श्री एस. के. मोही
डिवीजनल वार्डन
कर्नाटक

श्री अनसुईया प्रसाद द्विवेदी
सहायक उपनिरीक्षक (हो. गा.)
मध्य प्रदेश

श्री अलबिनस साइव
संयुक्त निदेशक (सी. डी.) संयुक्त महासमादेष्टा
(हो. गा.) मेघालय

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 32-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2008 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:--

सूबेदार प्रसन्न कुमार राय
रिजर्व इंस्पेक्टर (ए एस आर एफ)
असम

श्री हरीश तालुकदार
प्रशासनिक अधिकारी (सी टी आई)
असम

श्री चरनजीत सिंह
प्लाटून सरजेंट (हो गा)
चण्डीगढ़

श्री सुन्दर लाल देवांगन
इंस्पेक्टर (एम)
छत्तीसगढ़

श्री कृष्ण किशोर मिश्रा
सब इंस्पेक्टर (एम)
छत्तीसगढ़

श्री केशव सिंह मंडवी
हवलदार
छत्तीसगढ़

डा० रामा कान्त पाण्डेय उप-निदेशक नागरिक सुरक्षा (मेडिकल) दिल्ली	श्री विक्रम गौरीशंकर मेहता डिवीजनल वार्डन (सी डी) गुजरात
श्री अर्जुन सिंह गुरुंग जूनियर इंस्ट्रक्टर (हव.) दिल्ली	श्री धर्म पाल पुनिया प्लाटून कमांडर (हो. गा.) हरियाणा
श्री खजान सिंह जूनियर इंस्ट्रक्टर (हव.) दिल्ली	श्री सोमनगौडा मरेगौडा पाटिल कमांडेंट (हो. गा.) कर्नाटक
श्री जय प्रकाश गुप्ता डिप्टी चीफ वार्डन (सी डी) दिल्ली	श्री आर. के. श्रीनिवास डिवीजनल कमांडर (हो. गा.) कर्नाटक
श्री श्रीपाल मिश्र डिप्टी चीफ वार्डन (सी डी) दिल्ली	श्री सुरेश धनजया पासचापुर कंपनी कमांडर (हो. गा.) कर्नाटक
श्री कुलवंत सिंह डिवीजनल वार्डन (सी डी) दिल्ली	श्री लक्ष्मण शिवप्पा अंबाली कंपनी कमांडर (हो. गा.) कर्नाटक
श्री रामजीभाई मोहनभाई कापडीया जिला कमांडेंट (हो. गा.) गुजरात	श्री इम्तियाज अहमद सीनियर प्लाटून कमांडर (हो. गा.) कर्नाटक
श्री कांतिभाई कुबेरभाई परमार सीनियर प्लाटून कमांडर (हो. गा.) गुजरात	श्री मल्लपा इंस्ट्रक्टर (हो. गा.) कर्नाटक
श्री दिनेशभाई विठ्ठलभाई पटेल सीनियर डिवीजनल कमांडर (हो. गा.) गुजरात	श्री अब्दुल कयाम चालक कर्नाटक
श्री श्यामराव गनपतराव खुटवाड डिवीजनल वार्डन (सी डी) गुजरात	श्री वेंकटप्पा लोकनाथ एडजूटेंट (हो. गा.) कर्नाटक

श्रीमती संगीता शाक्या
डिवीजनल कमांडेंट (हो. गा.)
मध्य प्रदेश

श्री मेघ बहादुर गुरंग
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
उड़ीसा

श्री करन सिंह
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (हो. गा.)
मध्य प्रदेश

श्री कमला कांत दाश
सहायक सेक्शन लीडर (हो. गा.)
उड़ीसा

श्री मोहन प्रसाद श्रीवास्तव
सूबेदार (एम.)
मध्य प्रदेश

श्री ए विश्वनाथन
एडजूटेंट (हो. गा.)
तमिलनाडू

श्री अनीश कुमार मयंक
सूबेदार (एम.)
मध्य प्रदेश

श्री एन. लक्ष्मी नारायण
कम्पनी कमांडर (हो. गा.)
तमिलनाडू

श्री राजेन्द्र कुमार दुबे
सब-इंस्पेक्टर (एम.)
मध्य प्रदेश

श्री टी नागासुंदरम
प्लाटून कमांडर (हो. गा.)
तमिलनाडू

श्री कुँवर बहादुर सिंह
सहायक सब-इंस्पेक्टर (एम.)
मध्य प्रदेश

श्री एस सीनी
सेक्शन लीडर (हो. गा.)
तमिलनाडू

श्री काशी गिरि गोस्वामी
भृत्य
मध्य प्रदेश

श्री कालीदास बेद्य
होम गार्ड
त्रिपुरा

श्री गैबी नाथ जोगी
लांस नायक (हो. गा.)
मध्य प्रदेश

श्री महेन्द्र पाल सिंह
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (हो. गा.)
उत्तर प्रदेश

श्री गणेश कुमार प्रधान
जूनियर स्टाफ आफिसर
मेघालय

श्री राम लाल
कंपनी कमांडर (हो. गा.)
उत्तर प्रदेश

श्री गिरि हमबोय चल्लम
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (हो. गा.)
मेघालय

श्री सुनीत कुमार
कंपनी कमांडर (हो. गा.)
उत्तर प्रदेश

श्री महेश चन्द्र गर्ग
इंसीडेंट कंट्रोल आफिसर (सी डी)
उत्तर प्रदेश

श्रीमती पुष्प लता सिंह
डिवीजनल वार्डन (सी डी)
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार कौशिक
इंसीडेंट कंट्रोलर आफिसर (सी डी)
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

श्री राम औतार वर्मा
स्टाफ आफिसर (सी डी)
उत्तर प्रदेश

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 33-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति गुजरात होमगार्ड्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री अलपेशभाई कांतिभाई घोघारी (मरणोपरान्त)
प्लाटून सरजेंट (होमगार्ड्स)

दिनांक 2 जुलाई, 2007 की रात श्री अलपेशभाई कांतिभाई घोघारी, प्लाटून सरजेंट (होमगार्ड्स), जिला भावनगर, जो कि होम गार्ड्स की ड्यूटी पर तैनात थे, जिला कमांडेंट के वाहन को चला रहे थे। रात्रि के करीब 1.00 बजे तालूक बोतड जिला भावनगर में पास के गांव कारियानी के कैचमेंट्स एरिया के नजदीक बना बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया जिसका नतीजा यह हुआ कि जिला कमांडेंट होम गार्ड्स का सरकारी वाहन चालक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया।

2. श्री अलपेशभाई कांतिभाई घोघारी ने, जो कि एक निर्भय और सशक्त तैराक थे, व्यक्तिगत खतरे को नजर अंदाज करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर जिला कमांडेंट श्री सी.के. पटेल और वरिष्ठ प्लाटून कमांडर श्री के.जे. वसानी को जीवित बचाने में सफल हुए, लेकिन उन्होंने यह साहसिक कार्य, जो कि उनके कर्तव्य के दायरे से बाहर था, करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और पानी की तेज धार में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

3. इस प्रकार श्री अलपेशभाई कांतिभाई घोघारी, प्लाटून सरजेंट (होमगार्ड्स), जिला भावनगर ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के तहत एकमुश्त अनुदान इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 34-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति गुजरात होमगार्ड्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री त्रिलोककुमार नरेन्द्रप्रसाद ठाकर
डिवीजनल कमांडर (होमगार्ड्स)

दिनांक 3 जुलाई, 2007 की रात के 1.15 बजे डिप्टी कंट्रोलर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने श्री टी. एन. ठाकर को दूरभाष पर सूचना दी कि भादर-2 और भूखी बांधों के कैचमेंट एरिया में भारी वर्षा होने के उपरान्त बांधों से लगातार पानी छोड़ने के कारण पोरबन्दर जिले के घेड इलाके वाले कई प्रभावित गांवों में पानी भर गया है और इस क्षेत्र के गांव के लोग बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण निःसहाय फंस गए हैं। श्री टी. एन. ठाकर और उनका बचाव कार्य दल आवश्यक उपकरणों के साथ शीघ्रता से बाढ़ से प्रभावित लोगों के पास पहुंचे और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तेज गति से बहते गहरे पानी में कूद पड़े और देओदार, मितरारा, ऐरडा, भाद और अन्य गांवों के निःसहाय लोगों को बचाया जो कि पानी में डूब गए थे। एक बार फिर, दिनांक 10 अगस्त, 2007 की रात डिप्टी कंट्रोलर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पोरबन्दर से मिले निर्देशानुसार श्री टी. एन. ठाकर ने अपने बचाव दल के 10 गृह रक्षकों के साथ कुटियाणा तालुका के गांव जो कि बाढ़ के पानी में डूब गये थे विशेषतः पासवारी, चौटा, कासबाद, छटरौला, भोगसार इत्यादि में एक अन्य राहत व बचाव अभियान कार्यान्वित किया और इन गांवों और जिले के अन्य गांव के प्रभावित व पीड़ित लोगों तक, जो कि इस अवधि में भारी वर्षा के कारण प्रभावित थे, नावों के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किया।

2. इस प्रकार श्री टी. एन. ठाकर, डिवीजनल कमांडर (होमगार्ड्स), पोरबन्दर ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के तहत एकमुश्त अनुदान इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

दिनांक 26 जनवरी 2009

संख्या 35-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतन्त्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:--

श्री बसवराज रुद्राप्पा कन्दगल
इंचार्ज डि० कमांडेंट (हो. गा.)
कर्नाटक

श्री साध राम कश्यप
हवलदार (हो. गा.)
हिमाचल प्रदेश

श्री मान चन्द
प्लाटून कमांडर (हो. गा.)
हिमाचल प्रदेश

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

वरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 36-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतन्त्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:--

श्री सुभाष चन्द्र दास
सहायक कमांडेंट (ए.एस.आर.एफ.)
असम

श्री महेश कलिता
ऑफिस सुपरिटेण्डेंट
असम

श्री भूपति भूषन राय
असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (सी.डी.)
असम

श्री सुबिमल पुरकायस्थ
प्लाटून कमांडर (ए.एस.आर.एफ.)
असम

श्री राधा बोरा
डिप्टी चीफ वार्डन (सी.डी.)
असम

श्री बरदा कुमार दास
डिवीजनल वार्डन (सी.डी.)
असम

श्री अर्निल कुमार
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
हरियाणा

श्री जनक चन्द जमवाल
हवलदार (हो.गा.)
हिमाचल प्रदेश

श्री रूमालो राम
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
हिमाचल प्रदेश

श्री शिवी सिंह बलौरिया
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
हिमाचल प्रदेश

श्री भूप चन्द शर्मा
हवलदार इंस्ट्रक्टर (हो.गा.)
हिमाचल प्रदेश

श्री निगप्पा बोम्मना इन्नानाल
कमांडेंट (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री सोमशेखर शिवप्पा बेविनामरद
कमांडेंट (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री राजकुमार प्रभुशेट्टी मासीमादे
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री एन. थिरुवेंगदम
सी. डिवीजनल कमांडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री पी.ए. नागराज राव
इंस्ट्रक्टर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री मुनीसवामप्पा मरीयन्ना
स्टाफ आफिसर (ट्रेनिंग)
कर्नाटक

श्री ए. पुरुषोत्तम राव
इंस्ट्रक्टर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री कृष्णा जेटप्पा नायक
स्टाफ आफिसर (ट्रेनिंग)
कर्नाटक

श्री अपूर्व शुक्ला
डिवीजनल कमांडेंट (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री अनन्तराम शेट्टी सागर
स्टाफ आफिसर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री रमेश कुमार रजक
कंपनी कमांडर (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री देवदास शेट्टी
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री किशोर कुमार डबराल
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री सदाशिवय्या
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री अजय तिवारी
फोटोग्राफर
मध्य प्रदेश

श्री विश्वेश्वर नारायण भट्ट
सेक्शन लीडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री नन्द किशोर सक्सेना
सब-इंस्पेक्टर (एम)
मध्य प्रदेश

श्री कुबेर सिंह
सरजेंट (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री दुली चन्द कारपेंटर
सहायक सब-इंस्पेक्टर (एम)
मध्य प्रदेश

श्री चन्नापुर निजेगोडा मल्लेशगोडा
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
कर्नाटक

श्री पारस नाथ विश्वकर्मा
सहायक सब-इंस्पेक्टर (एम)
मध्य प्रदेश

श्री दीप नारायण तोरनिया
सहायक सब-इंस्पेक्टर (एम)
मध्य प्रदेश

श्री विद्याधर जेना
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
उड़ीसा

श्री मुंशी खान
कम्पनी क्वार्टर मास्टर (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री पी श्रीरमन
कंपनी कमांडर (हो.गा.)
तमिलनाडु

श्री अम्बा राम नागर
हवलदार (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री के. रमेश राजी
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
तमिलनाडु

श्री अर्जुन सिंह
हवलदार (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री के. सार्थिया सीलन
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
तमिलनाडु

श्री सुरेश चन्दर शर्मा
लांस नायक (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री टी. सुब्रमनियन
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
तमिलनाडु

श्री बाबू सिंह चंद्रावत
सैनिक
मध्य प्रदेश

श्री एम. के. रामासामी राजा
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
तमिलनाडु

श्री पूरा लाल श्रीवास
सैनिक
मध्य प्रदेश

श्री क्रिस्टोफर आरलैण्ड
डिवाजनल वार्डन (सीडी)
मध्य प्रदेश

श्री नारायण मुखर्जी
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)
उड़ीसा

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

दिनांक 23 मार्च 2009

शुद्धिपत्र

सं. 37-प्रेज/2009--भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित "सेना मेडल" पुरस्कार के संबंध में इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 48-प्रेज/74, दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

क्रम सं. 39 पर

"कप्तान ज़फर अली (आई सी 22240), तोपखाना" :--के स्थान पर

"कप्तान ज़फर अली (आई सी 22440), तोपखाना"--पढ़ा जाए।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2009

आदेश

सं. एफ. 16-23/2005-अकादमी--इस मंत्रालय के दिनांक 17.5.2007 के आदेश संख्या 16-23/2005-अकादमी के क्रम में, भारत सरकार, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यास के घोषणा विलेख में इसे प्रदत्त शक्तियों तथा अपनी सामान्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एतद्वारा जनहित में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र न्यास में निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करने का आदेश करती है :--

1. प्रो. यू. आर. अनंतमूर्ति,
संख्या 498 "सुरगी", एच. आई. जी. हाउस,
आर एम वी सैकण्ड स्टेज, 6 'ए' मेन,
बेंगलूरु-560094.
2. डॉ. पद्मा सुब्रमणियम्,
निदेशक,
"नृत्योदय",
ओल्ड # 6, चौथा मेन रोड,
गांधी नगर, चेन्नई-600020.
3. डॉ. किरण मजूमदार-शॉ
बायकॉन इण्डिया लिमिटेड,
20वाँ के. एम. होसूर रोड,
हेब्बागोडी,
बेंगलूरु-561229.
4. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।

निहाल चंद गोयल
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2008

No. 31-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2008 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers:—

Shri Chander Pal Saini
Junior Instructor (HG)
Delhi

Shri S.K. Mohi
Divisional Warden
Karnataka

Shri Ansuya Prasad Dwivedi
Asstt. Sub Inspector (HG)
Madhya Pradesh

Shri Albinus Saio
Jt. Director (CD) & Jt. Comdt. Genl. (HG)
Meghalaya

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy

No. 32-Pres/2009 — The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2008 to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers: —

Subedar Prasanna Kumar Roy
Reserve Inspector (ASRF)
Assam

Shri Harish Talukdar
Admn. Officer (CFl)
Assam

Shri Charanjit Singh
Platoon Sergeant (HG)
Chandigarh

Shri Sunder Lal Dewangan
Inspector (M)
Chhattisgarh

Shri Krishna Kishor Mishra
Sub Inspector (M)
Chhattisgarh

Shri Keshav Singh Mandavi
Havildar
Chhattisgarh

Dr. Rama Kant Pandey
Dy. Director Civil Defence (Medical)
Delhi

Shri Arjun Singh Gurung
Jr. Instructor (Hav)
Delhi

Shri Khazan Singh
Jr. Instructor (Hav)
Delhi

Shri Jai Prakash Gupta
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Shripal Mittal
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Kulwant Singh
Divisional Warden (CD)
Delhi

Shri Ramjibhai Mohanbhai Kapadia
Distt. Comdt. (HG)
Gujarat

Shri Kantibhai Kuberbhai Parmar
Sr. Platoon Comdr. (HG)
Gujarat

Shri Dineshbhai Vittalbhai Patel
Sr. Divisional Comdr. (HG)
Gujarat

Shri Shyamrao Ganpatrao Khutwad
Divisional Warden (CD)
Gujarat

Shri Vikram Gaurishanker Mehta
Divisional Warden (CD)
Gujarat

Shri Dharm Pal Punja
Platoon Comdr. (HG)
Haryana

Shri Somangouda Maregouda Patil
Commandant (HG)
Karnataka

Shri R.K. Srinivasa
Divisional Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Suresh Dhanjaya Paschapur
Coy. Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Laxman Shivappa Ambali
Coy. Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Imtiaz Ahmed
Sr. Platoon Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Mallappa
Instructor (HG)
Karnataka

Shri Abdul Quayam
Driver
Karnataka

Shri Venkatappa Lokanatha
Adjutant (HG)
Karnataka

Smt. Sangeeta Shakya
Divl. Comdt. (HG)
Madhya Pradesh

Shri Karan Singh
Distt. Comdt. (HG)
Madhya Pradesh

Shri Mohan Prasad Shrivastava
Subedar (M)
Madhya Pradesh

Shri Anish Kumar Mayank
Subedar (M)
Madhya Pradesh

Shri Rajendra Kumar Dubey
Sub Inspector (M)
Madhya Pradesh

Shri Kunwar Bahadur Singh
Asst. Sub Inspector
Madhya Pradesh

Shri Kashi Giri Goswami
Peon
Madhya Pradesh

Shri Gaibee Nath Jogi
Lance Naik (HG)
Madhya Pradesh

Shri Ganesh Kumar Pradhan
Junior Staff Officer
Meghalaya

Shri Giri Hamboy Challam
Distt. Comdt. (HG)
Meghalaya

Shri Megh Bahadur Gurung
CD Volunteer
Orissa

Shri Kamala Kanta Dash
Asst. Section Leader (HG)
Orissa

Shri A. Viswanathan
Adjutant (HG)
Tamil Nadu

Shri N. Lakshmi Narayanan
Coy. Comdr. (HG)
Tamil Nadu

Shri T. Nagasundaram
Platoon Comdr. (HG)
Tamil Nadu

Shri S. Seeni
Section Leader (HG)
Tamil Nadu

Shri Kalidas Baidya
Home Guard
Tripura

Shri Mahendra Pal Singh
Distt. Comdt. (HG)
Uttar Pradesh

Shri Ram Lal
Coy. Comdr. (HG)
Uttar Pradesh

Shri Suneet Kumar
Coy. Comdt. (HG)
Uttar Pradesh

Shri Mahesh Chandra Garg
Incident Control Officer (CD)
Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Kaushik
Incident Control Officer (CD)
Uttar Pradesh

Shri Ram Autar Verma
Staff Officer (CD)
Uttar Pradesh

Smt. Pushpa Lata Singh
Divl. Warden (CD)
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 33-Pres./2009—The President is pleased to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Gujarat Home guards :—

Sh. Alpeshbhai Kantibhai Ghoghari (Posthumous)
Platoon Sergeant (HG)

On the night of 2nd July, 2007 Shri Alpeshbhai Ghoghari, Platoon Sergeant, Bhavnagar District Home Guard was driving the vehicle of the District Commandant who was on official Home Guard duty. At approx. 0100 hrs on 2nd July, 2007, near Village Kariyani, taluke Botad District Bhavnagar, a dam situated above the village burst due to very heavy rainfall in the catchments area at that particular time, as a result of which, due to the force of water the official Government vehicle of the District Commandant, Home Guards along with the occupants was swept away in the strong current.

2. Shri Alpeshbhai Ghoghari being a strong and fearless swimmer, without regard to his own personal risk was instrumental in saving the lives of the Distt. Commandant, Shri C. K. Patel, and Sr. Platoon Commander, Shri K. J. Vasani, however, while carrying out his task above and beyond the call of duty he paid with the supreme sacrifice of his life and expired due to drowning.

3. Shri Alpeshbhai Ghoghari, Platoon Sergeant, Bhavnagar District Home Guard displayed conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a very high order.

4. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry and

consequently carries with it a lumpsum monetary grant admissible under Rule 5.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 34-Pres/2009—The President is pleased to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Gujarat Home Guards :—

Shri Trilok Kumar Narendraprasad Thaker
Divisional Commander (HG)

On the night of 3rd July, 2007 at 01 : 15 hrs. the Dy. Collector and Sub-Divisional Magistrate gave a telephonic message to Shri T. N. Thaker that due to very heavy rainfall in the catchments area of the Bhadar-2 and Bhukhi Dams and the subsequent release of water from these dams, the Ghed area in Porbandar district with many affected villagers had got inundated and the villagers of this area have been stranded due to the water over flowing through their villages. Shri T. N. Thaker alongwith his rescue team and necessary equipment immediately rushed to the affected area and daringly jumped into deep flowing waters with strong current and unmindful of personal risk rescued the villagers stranded in Deodar, Mitrara, Aerda, Bhad and other villages which had got inundated. Once again, on the night of 10th August, 2007, on receiving instructions from the District Collector and District Magistrate, Porbandar, Shri T. N. Thaker alongwith his rescue team of 10 Home Guards carried out similar rescue and relief operation due to inundation of the villages of Kutiana Taluka specially, Pasvari, Chauta, Kasabad, Chhatrola, Bhogsar etc. and also supervised the transportation of the relief material by boats to the affected people of these villages and other villages of the district, which had been affected due to the very heavy rainfall during this period.

2. Shri T. N. Thaker, Divisional Commander, Home Guard, Porbandar displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry and

consequently carries with it a lumpsum monetary grant admissible under Rule 5.

BARUN MITRA
Joint Secy.

The 26th January 2009

No. 35-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Basavaraj Rudrappa Kandagal
1/C Dy. Comdt. (HG)
Karnataka

Shri Sadh Ram Kashyap
Havildar (HG)
Himachal Pradesh

Shri Man Chand
Pl. Comdr. (HG)
Himachal Pradesh

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 36-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:—

Shri Subash Chandra Das
Asstt. Comdt. (ASRF)
Assam

Shri Mahesh Kalita
Office Supdt.
Assam

Shri Bhupati Bhusan Roy
Asstt. Dy. Controller (CD)
Assam

Shri Subimal Purkayastha
Pl. Comdr. (ASRF)
Assam

Shri Radha Bora
Dy. Chief Warder (CD)
Assam

Shri Barada Kumar Das
Divisional Warden (CD)
Assam

Shri Anil Kumar
Pl. Comdr. (HG)
Haryana

Shri Janak Chand Jamwal
Havildar (HG)
Himachal Pradesh

Shri Rumalo Ram
Pl. Comdr. (HG)
Himachal Pradesh

Shri Shivi Singh Baloria
Pl. Comdr. (HG)
Himachal Pradesh

Shri Bhup Chand Sharma
Havildar Instructor (HG)
Himachal Pradesh

Shri Ningappa Bommana Inganal
Commandant (HG)
Karnataka

Shri Somashekar Shivappa Bevinamarad
Commadant (HG)
Karnataka

Shri N. Thiruvengadam
Sr. Divl. Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Muniswamappa Mariyanna
Staff Officer (Trg.)
Karnataka

Shri Krishna Jettappa Naik
Staff Officer (Trg.)
Karnataka

Shri Anantharama Shetty Sagar
Staff Officer (HG)
Karnataka

Shri Devadas Shetty
Pl. Comdr. (HG)
Karnataka

Shri Sadashivaiah Pl. Comdr. (HG) Karnataka	Shri Munshi Khan Coy. Quarter Master (HG) Madhya Pradesh
Shri Vishweshwar Narayan Bhat Section Leader (HG) Karnataka	Shri Amba Ram Nager Havildar (HG) Madhya Pradesh
Shri Kuber Singh Sergeant (HG) Karnataka	Shri Arjun Singh Havildar (HG) Madhya Pradesh
Shri Channapur Ningegowda Malleshgowda Pl. Comdt. (HG) Karnataka	Shri Suresh Chander Sharma Lance Naik (HG) Madhya Pradesh
Shri Rajkumar Prabhushetty Masimade Pl. Comdr. (HG) Karnataka	Shri Babu Singh Chandrawat Sainik Madhya Pradesh
Shri P. A. Nagaraj Rao Instructor (HG) Karnataka	Shri Pura Lal Shrivastava Sainik Madhya Pradesh
Shri A. Purushotham Rao Instructor (HG) Karnataka	Shri Christopher Arland Divl. Warden (CD) Madhya Pradesh
Shri Apurva Shukla Divl. Comdt. (HG) Madhya Pradesh	Shri Narayan Mukherjee Pl. Comdr. (HG) Orissa
Shri Ramesh Kumar Rajak Coy. Comdr. (HG) Madhya Pradesh	Shri Bidyadhar Jena Pl. Comdr. (HG) Orissa
Shri Kishore Kumar Dabral Pl. Comdr. (HG) Madhya Pradesh	Shri P. Sriraman Coy. Comdr. (HG) Tamil Nadu
Shri Ajay Tiwari Photographer Madhya Pradesh	Shri K. Ramesh Raji Pl. Comdr. (HG) Tamil Nadu
Shri Nand Kishore Saxena Sub-Inspector (M) Madhya Pradesh	Shri K. Sathya Seelan Pl. Comdr. (HG) Tamil Nadu
Shri Duli Chand Carpenter Asst. Sub-Inspector (M) Madhya Pradesh	Shri T. Subramaniyan Pl. Comdr. (HG) Tamil Nadu
Shri Paras Nath Vishwakarma Asst. Sub-Inspector (M) Madhya Pradesh	Shri M.K. Ramasamy Raja Pl. Comdr. (HG) Tamil Nadu
Shri Deep Narayan Toraniya Asst. Sub-Inspector (M) Madhya Pradesh	

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

CORRIGENDUM

The 23rd March 2009

No. 37-Pres/2009—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 48-Prs/74 dated 06 April 1974 published in Part-I, Section-I of the Gazette of India dated 20 April, 1974 relating to the award of "Sena Medal" :—

At Serial Number 39

For : "Captain Zafar Ali (IC-22240), Artillery"

Read : "Captain Zafar Ali (IC-22440), Artillery"

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 20th February 2009

ORDER

No. 16-23/2005-Akademies—In continuation of this Ministry's Order No. 16-23/2005-Akad.

dated 17th May, 2007, the Government of India in exercise of the powers vested upon it in the Deed of Declaration of Trust of Indira Gandhi National Centre for the Arts as well as its general powers, hereby orders, in public interest, the nomination of the following members to the Indira Gandhi National Centre for the Arts Trust :—

1. Prof. U.R. Ananthamurthy,
No. 498 "Suragi", H.I.G. House,
RMV 2nd Stage, 6th 'A' Main,
Bangalore-560094.
2. Dr. Padma Subrahmaniam,
Director,
"Nrityodaya",
Old #6, 4th Main Road,
Gandhi Nagar,
Chennai-600020.
3. Dr. Kiran Mazumdar-Shaw
Biocon India Limited
20th K.M. Hosur Road,
Hebbagodi
Bangalore-561229
4. Secretary,
Ministry of Culture, Government of India.

NIHAL CHAND GOEL
Joint Secy.